



**बच्चों की सुरक्षा हेतु निर्देश**



# क्या करें

- ✓ बच्चों को गुड टच व बेड टच के बारे में बताना चाहिये।
- ✓ अपने मोहल्ले में आस पडोस के लोगो के व्यवहार से बच्चों को परिचित कराना चाहिये।
- ✓ अपने आस पडोस में रहने वाले लोगो की पूरी जानकारी रखना चाहियें।
- ✓ अपने मोहल्ले में बच्चों के स्कूल कॉलेज व काम करने के स्थान के आसपास नजदीकी बढाने वाले के किसी भी अनजान व्यक्ति से पूछताछ करे व उसको रोकटोकी करे।
- ✓ मां बाप को अपने बच्चों के साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार करना चाहिये ताकि वे अपने मन की बात उनको बिना डरे बता सके।
- ✓ अपने बच्चों को आपके स्थानीय थाने के फोन नम्बर और आपातकालीन नम्बर जैसे **100** आदि के बारे में जानकारी देना चाहिये।
- ✓ अगर माता पिता घर से बाहर जाये तो बच्चों के बारे में सूचना अपने विस्वसनीय रिस्तेदारो या विस्वसनीय पडोसियों को देना चाहियें।



# क्या करें

- ✓ अगर आपके मोहल्ले में कोई भी संदेही व्यक्ति दिखता है या रहता है उसके सम्बंध में सूचना स्थानीय थाने पर देना चाहिये।
- ✓ आपके पास आपके क्षेत्र मोहल्ले में तैनात बीट अधिकारी के मोबाईल नम्बर होना चाहिये और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना उन्हें तत्काल देना चाहियें।
- ✓ माता पिता को अपने बच्चों को यह भी सिखाना चाहिये कि यदि उनके स्कूल, कालेज, कोचिंग स्थान पर कोई अनजान व्यक्ति या उनका पडौसी उन्हें लेने के लिये आता है तो उन्हें यह बात अपने टीचर को बताना चाहिये और उनकी अनुमति के पश्चात ही उनके साथ जाना चाहियें।
- ✓ यदि उन्हें फोन देना आवश्यक हो तो उसमें डेटा लाॅक तथा पेरेंटल लाॅक लगायें।
- ✓ यदि सम्भव हो तो अपनी काॅलोनी में तथा घर के आसपास सीसीटीव्ही केमरो को लगवाना चाहियें।



# क्या न करें

- ✗ अपने बच्चों को किसी भी दूर के रिस्तेदार, पडोसी अथवा अनजान व्यक्ति के साथ कहीं भी न भेजे।
- ✗ बच्चों को स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, उनके काम करने के स्थान व मार्केट में अकेले नहीं जाने देना चाहिये।
- ✗ यदि माता पिता दोनो कामकाजी है और बच्चों को घर पर अकेले छोड़ना पडता है तो माता पिता को बच्चों को यह सिखाना चाहिये कि यदि कोई अनजान व्यक्ति घर में आने की कोशिश करे तो घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिये।
- ✗ रात्रि में बच्चों को कहीं भी अकेला नहीं जाने देना चाहियें।
- ✗ माता पिता को अपने बच्चों से किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ जैसे- गुटखा, बीडी, सिगरेट, पान, शराब आदि नहीं मंगाना चाहियें।
- ✗ माता-पिता को अपने बच्चों के समक्ष किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहियें।



# क्या न करें

- ✗ माता पिता को किसी उत्सव, त्योंहारों व अन्य समारोह में अपने बच्चों पर विशेष निगरानी रखते हुए अकेले नहीं छोडना चाहियें।
- ✗ बच्चों को किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट नहीं लेना चाहियें।
- ✗ माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित न रहने दे।
- ✗ बच्चों को कम उम्र में मोबाईल फोन उपयोग हेतु नहीं देना चाहियें।

